



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श0)

(सं0 पटना 530) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं0 03/AMRUT-21-03/2015—1519/न0वि0एवंआ0वि0
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 जून 2017

विषय:— केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹11048.83 लाख (एक अरब दस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार ₹0 मात्र) एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹3265.95 लाख (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार ₹0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना में राज्य के एक लाख से अधिक आबादी वाले 27 नगर निकाय आच्छादित हैं। AMRUT योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में योजना को राज्य में लागू किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त है। AMRUT योजना के अनुश्रवण हेतु मार्गदर्शिका के कंडिका 10.2 के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) गठित है। मार्गदर्शिका के कंडिका 10.3 में DPR का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन करने हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) गठित है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तैयार किये गये State Annual Action Plan (SAAP)-II पर भारत सरकार के Apex Committee की सहमति प्राप्त है। SAAP-II के अनुसार राज्य के 07 नगर निकायों में जलापूर्ति योजना एवं दो नगर निकायों में ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन किया जाना है। इनमें से पूर्णिया जलापूर्ति योजना एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) को राज्यस्तरीय तकनीकी समिति के अनुशंसा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्यस्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) के समक्ष रखा गया। SHPSC द्वारा दिनांक 07.06.17 को विमर्शोपरांत उक्त जलापूर्ति योजना एवं ड्रेनेज योजना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। वित्त विभाग के द्वारा 20 करोड़ से अधिक लागत वाली योजनाओं को राज्य मंत्रिपरिषद से स्वीकृत कराने का परामर्श दिया गया है। उक्त के आलोक में राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 20.06.2017 को सम्पन्न बैठक में मद सं0-06 के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. AMRUT योजना के कार्यान्वयन हेतु योजना के प्राक्कलित राशि का 50% केन्द्र सरकार द्वारा, 30% राज्य सरकार द्वारा और 20% का वहन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

(राशि लाख रु0 में)

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	केन्द्रांश की राशि 50%	राज्यांश की राशि 30%	नगर निकाय का अंशदान 20%
1	पूर्णिया जलापूर्ति योजना	11048.83	5524.415	3314.649	2209.766
2	भागलपुर ड्रेनेज योजना	3265.95	1632.975	979.785	653.19

4. उक्त जलापूर्ति योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल परषद (BRJP) एवं ड्रेनेज योजना की कार्यान्वयन एजेंसी बुडको होगी। संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। राज्यांश मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा।

5. AMRUT योजना के अधीन सभी योजनाओं का चयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया गया है तथा इसे संबंधित नगर निकाय के बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकाय द्वारा भूमि उपलब्ध करा दिया गया है एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) भी दे दिया गया है।

6. जलापूर्ति योजना के अंतर्गत पूर्णिया नगर निकाय क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास कर राष्ट्रीय मानक के स्वच्छ पेय जलापूर्ति किया जाना है। इस योजना को अगले 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस जलापूर्ति योजनान्तर्गत पूर्णिया नगर निकाय के लगभग 34955 परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रावधान है कि योजना पूर्ण होने के उपरांत संवेदकों द्वारा अगले 5 वर्षों तक इसका रख-रखाव किया जाएगा। उसके बाद नगर निकायों द्वारा संधारण किया जाएगा।

ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत भागलपुर नगर निकाय को जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने की योजना है। इसके अन्तर्गत भागलपुर नगर निकाय क्षेत्र में वर्षा जल को ड्रेनेज के माध्यम से शहर से बाहर प्रवाहित करने का प्रावधान किया गया है।

7. पूर्णिया जलापूर्ति योजना एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना के अधीन किये जाने वाले कार्य का विवरण
1.	पूर्णिया जलापूर्ति योजना	11Nos Tube wells, Storage Reservoirs 7 Nos of 681 KL Capacity each Distribution Pipe line- 184.637 km HH connection - 34955 (63.82%) SCADA -yes
2.	भागलपुर ड्रेनेज योजना	Project covers ward No.- 19,20,21,22&23 length of new drain - 48.93129 KM. Length of dismantling &re construction of new drain -7.32157 KM. Length of road crossing by laying RCC Hume Pipe 4.89313 KM.

8. अतः केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजना के अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹11048.83 लाख (एक अरब दस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार रु0 मात्र) एवं भागलपुर ड्रेनेज योजना के कार्यान्वयन हेतु ₹3265.95 लाख (बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख पंचानवे हजार रु0 मात्र) अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/संबंधित नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहारा-राज्यपाल के आदेश से,
चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 530-571+200-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>